



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 14-01-2022

नारायणपुर(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-01-14 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-01-15	2022-01-16	2022-01-17	2022-01-18	2022-01-19
वर्षा (मिमी)	10.0	4.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0
न्यूनतम तापमान(से.)	16.0	16.0	15.0	15.0	15.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	94	91	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	44	37	30	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
पवन दिशा (डिग्री)	68	68	68	75	112
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	1	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान नारायणपुर जिले में 15 जनवरी को मध्यम वर्षा एवं बाद में आसमान साफ़ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26.0 से 27.0 °C एवं न्यूनतम तापमान 15.0 से 16.0 °C के आस-पास रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में सुबह 80 से 94 % और शाम के समय 25 से 55 % आर्द्रता रहने की संभावना है। मुख्यतः उत्तर-पूर्व दिशा से लगभग 2 से 3 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

15 जनवरी के बाद मौसम खुल सकता है, किसान भाई खड़ी फसलों पर रसायन का छिड़काव कर सकते हैं।

### लघु संदेश सलाहकार:

सेमी में मैनी कीट दिखने पर थाईमैथोक्जेम 25 डब्लू जी पाउडर का 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की दर से शाम के समय छिड़काव करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
------	-------------------

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	मृदा में पर्याप्त नमी को देखते हुए जहाँ गेहूँ की फसल 21 से 25 दिन की हो चुकी है वहाँ यूरिया का छिड़काव करें.
चना	अधिक उपज के लिए चने की फसल को 30 से 40 दिनों में (फूल आने से पहले) खुन्टाई (पौधे के ऊपरी हिस्सों की छंटाई) करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	ग्रीष्मकालीन टमाटर की अगेती फसलके लिए थरहा की बुआई करें.

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं में खुरहा-चपका, लंगड़ी बुखार एवं गलघोंटू रोग से बचाव के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर टिकाकरण करवाएं.
गाय	पशु चिकित्सक से सलाह लेकर चार से आठ माह के बछियों को ब्रूफेलोसिस (संक्रामक गर्भपात) रोग से बचाव हेतु टिका लगवाएं.

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	आलू में अगेती झुलसा के लक्षण दिखाई देने पर मेटालेक्जिल (8%)+मेंकोजेब (6.4%) की 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल 2 से 3 छिड़काव करें.
सामान्य सलाह	चने के खेत में पक्षियों के बैठने के लिए खुटियां स्थापित करें ताकि हानिकारक कीटों की इल्लियों को खाकर फसल फसल की रक्षा कर सकें.